

To, Date: 15.02.2023

### The Manager-Listing

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza,C-1,Block-G, Bandra Kurla Complex (E), Mumbai-400051 The Manager-Listing

BSE Limited Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

**NSE Symbol-VISESHINFO** 

Scrip Code-532411

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2022 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

With reference to the captioned subject, we would like to inform you that in accordance with Reg.47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published its Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2022 in newspapers namely, 'Business Standard' (English and Hindi) dated 15th February, 2023.

The same will be available on the website of the Company: <a href="https://www.mpsinfotec.com/newsroom.html">https://www.mpsinfotec.com/newsroom.html</a>

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You,

Yours faithfully For MPS Infotecnics Limited

GARIMA SINGH Digitally signed by GARIMA SINGH Date: 2023.02.15 13:04:07 +05'30'

Garima Singh Company secretary

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-1 Ph.: 011-43571044, Fax: 011-43571047 E-mail: info@mpsinfotech.com

## Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited

Registered Office : 75/8, Benares Cape Road, Gangaikondan - 627352, Tirunelveli District, Tamilnadu Phone : +91 462 248 6532, Fax : +91 462 248 6132 E-mail ID : ho@klrf.in, website : www.klrf.in

CIN: L15314TN1961PLC004674 CORRIGENDUM to the Extract of unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31,2022.

This has reference to the Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31/12/2022 published by us on 11/02/2023. It was noticed that the figures presented in the first column relating to the results for the quarter ended 31/12/2022 contained inadvertent error, although the results pertaining to the nine months ended were presented intact. Hence, the correct results for the quarter ended 31/12/2022 is published herein below and there is no other changes in any other information including notes published on 11/02/2023. This corrigendum shall be read in conjunction with the said publication. This corrigendum along with the corrected results are placed on the company's website www.klrf.in

		Three months ended
S.No.	Particulars	31.12.2022 (unaudited)
1.	Total Revenue from operations (net)	8,153.84
2.	Net profit / (loss) for the period (before tax exceptional and/or extraordinary items)	149.99
3.	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	149.99
4.	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	59.62
5.	Total comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	50.01
6.	Equity share capital	554.15
7.	Other equity (excluding revaluation reserve)	-
8.	Earnings per share (of Rs.10/- each)	
	(a) Basic (b) Diluted	1.08 1.08

For Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited Suresh Jagannathan Executive Chairm DIN : 00011326

## MPS INFOTECNICS LIMITED

Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L30007DL1989PLC131190, Ph: 011-43571044, Fax:011-43571047; Email: info@mpsinfotec.com Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2022

	(inter-									
S. No.	Particulars	ď	Quarter Ended			Nine Months Ended				
		31-Dec-22 Un-audited	30-Sep-22 Un-audited	31-Dec-21 Un-audited		31-Dec-21 Un-audited	31-Mar-22 Audited			
1 2	Total income from operations (net)	12.77	11.75	93.67	39.29	115.56	133.96			
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(119.75)	(124.37)	(54.49)	(373.47)	(321.58)	(454.98)			
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(104.18)	(108.79)	(43.30)	(326.75)	(288.01)	(412.14)			
4	Total Comprehensive Income for the Period (Net of Taxes)	(89.86)	(16.36)	(42.86)	(250.10)	(286.71)	(381.19)			
5	Equity Share Capital (Face Value Rs.1/- per share)	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37			
6	Reserves excluding Revaluation reserves (i.e. Other equity)						6,100.68			
7	Earning Per Share (Basic)	(0.002)	(0.000)	(0.001)	(0.007)	(0.008)	(0.010)			
7 8	Earning Per Share (Diluted)	(0.002)	(0.000)	(0.001)	(0.007)	(0.008)	(0.010)			

### Note:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website

The key standalone financial information are as under:

Particulars	C	uarter Ende	d	Nine Monti	ns Ended	Financial Year Ended
	31-Dec-22 Un-audited	30-Sep-22 Un-audited				
Total revenue from operations	12.77	11.75	93.67	39.29	115.56	133.96
Profit before tax	(119.75)	(124.37)	(54.49)	(373.47)	(321.58)	(454.98)
Profit after tax	(104.18)	(108.79)	(43.30)	(326.75)	(288.01)	(412.14)

The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2023. For MPS Infotecnics Limited

Mr. Peeyush Kumar Aggarwal

Managing Director DIN:00090423 Place : New Dolh Date: 13/02/2023

	ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED  Regd. Office: B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110092 CIN - U63031DL2005PLC349200										
Γι	Jnaudited Financial Results for the Quarter an	d Nine Mont	hs Ended De	cember 31, 2	022 (Amou	nts in Lacs)					
SI No.	Particulars	For the quarter ended December 31, 2022 Unaudited	For the quarter ended December 31, 2021 Unaudited	For the nine months ended December 31, 2022 Unaudited	For the nine months ended December 31, 2021 Unaudited	For the year ended March 31, 2022 Audited					
1	Total Income from Operations	1,424.81	1,211.91	3,717.71	3,752.16	4,940.07					
2	Net Profit / (Loss) for the period/year (Before Tax, Exceptional and / or Extraodinary Items)	(740.25)	(177.24)	(1,837.88)	(424.15)	(630.47)					
3	Net Profit / (Loss) for the period/year Before Tax (after Exceptional and / or Extraodinary Items)	(740.25)	(177.24)	(1,837.88)	(424.15)	(630.47)					
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and / or Extraodinary Items)	(520.69)	(131.48)	(1,383.69)	(324.08)	(466.14)					
5	Total Comprehensive Income for the period/year (Comprising profit / (Loss) for the period/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(521.86)	(131.91)	(1,383.75)	(323.42)	(467.55)					
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	1,190.01	1,190.01	1,190.01	1,190.01	1,190.01					
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(3,596.21)	(2,068.33)	(3,596.21)	(2,068.33)	(2,212.46)					
8	Net worth	(2,406.20)	(878.32)	(2,406.20)	(878.32)	(1,022.45)					
9	Paid up debt capital / Outstanding debt	19,433.58	26,274.59	19,433.58	26,274.59	26,282.81					
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-						
11	Debt / Equity Ratio	(8.08)	(29.91)	(8.08)	(29.91)	(25.71)					
12	Earning per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) (for Continuing and discontinued operations) -		2000								
	1. Basic	(4.38)	(1.10)	(11.63)	(2.72)	(3.92)					
	2. Diluted	(4.38)	(1.10)	(11.63)	(2.72)	(3.92)					
13	Capital Redemption Reserve	-	-	=	-						
14	Debenture redemption reserve (Refer note 4 of Notes to Results)	-		-	-	-					
15	Debt Service Coverage Ratio	0.03	0.20	0.15	0.29	0.34					
16	Interest Service Coverage Ratio	0.17	0.83	0.51	0.87	0.85					

The above financial results of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2022 were reviewed and approved by the Board of

Directors in their meeting held on February 13, 2023 the audit of results have been carried out by the Statutory Auditors.

In the absence of distributable profits, the Company has not created Debenture Redemption Reserve (DRR) during the current period. However, the Company is carrying DRR made during the previous years and is regular in redeeming matured debenture.

Information as required by Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

exure attached, the pertinent disclosures have been made to the NSE Limited and can be accessed on https://www.ns The above is an extract of the detailed formet of quarter and nine month ended financial results filled with the NSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the NSE Limited and on the company website: https://apel.net.in. For and on behalf of Board of Directors
ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED

# **RAMINFO LIMITED**

Regd. Off: 3-225/SH/401, 4th Floor, Sterling Heights, Mahindra Mindspace, Kavuri Hills, GB PET Phase 2, Hyderabad-500033, Telangana. CIN: L72200TG1994PLC017598

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE-MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2022

(Rs. In Lakhs)

		5	STANDALONE		CONSOLIDATED			
SI. No.	PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2022	Nine months ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2021	Quarter ended 31.12.2022	Nine months ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2021	
		Un-Audited	<b>Un-Audited</b>	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	
1.	Total Revenue from Operations	2,093.77	6,041.46	3,112.92	2,096.43	6,044.12	3,112.92	
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	280.90	820.69	306.07	276.89	806.75	300.54	
3.	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	280.90	820.69	306.07	277.22	806.35	298.85	
4.	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	209.20	563.79	254.68	205.31	549.28	248.56	
5.	Total comprehensive income for the period [comprising profit after tax and other comprehensive income (afer tax)]	1.10	1.57	(5.68)	1.10	1.57	(5.68	
6.	Paid up Equity Share Capital (Rs.10/- per equity share)	67.14	67.14	67.14	67.14	67.14	67.14	
7.	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year ended)	1,692.62	1,692.62	900.52	1,967.47	1,967.47	887.01	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised)							
	Basic (in Rs.)	3.12	8.40	3.71	3.06	8.18	3.62	
	Diluted (in Rs.)	3.12	8.40	3.71	3.06	8.18	3.62	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with BSE Limited under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on company's website at www.raminfo.com and BSE Limited's website i.e., www.bseindia.com.

Place: Hyderabad Date: 14.02.2023 For and on behalf of the Board L. Srinath Reddy





ıd. Office: 504A, 5th Floor "OZONE" Dr. Vikram Sarabhai Marg, Vadi-Wadi, Vadodara - 390003 | CIN: L51900GJ2015PLC085474

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2022

		CONSULIDATED						
Sr.	Particulars	Q	QUARTER ENDED			THS ENDED	YEAR ENDED	
No.	r ai ilcuiai s	31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	
1	Total Income from operations (Net)	2,478.32	2,917.32	1,538.86	7,783.35	5,083.68	7,042.14	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	175.54	223.86	111.11	645.24	361.62	515.24	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	175.54	223.86	111.11	645.24	361.62	515.24	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	177.64	204.23	102.61	594.82	328.87	466.35	
5	Total Comprehensive Income for the period	174.53	232.73	98.39	668.01	375.82	534.95	
6	Equity Share Capital (Face Value ₹1/- per share)	1,257.20	1,257.20	1,257.20	1,257.20	1,257.20	1,257.20	
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					*	1,353.83	
8	Earnings Per Equity Share on net profit after tax (Fully paid-up equity share of ₹1/- each)							
	1. Basic (₹)	0.14	0.16	0.07	0.45	0.24	0.34	
	2. Diluted (₹)	0.14	0.16	0.07	0.45	0.24	0.34	
			<u> </u>			<u> </u>		

# 1. Key numbers of Unaudited Standalone Financial Results

(₹ In Lakhs STANDALONE YEAR ENDED **QUARTER ENDED NINE MONTHS ENDED Particulars** 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 1 Turnover (Revenue from operations) 675.42 1005.08 44.59 1704.24 410.21 429.58 2 Profit Before Tax 18.20 52.22 (11.62)83.38 (3.37)(20.73)3 Profit After Tax 18.96 38.73 (8.65)67.34 (4.52)(22.27)

(In above table, brackets denotes negative figures)

2. The above is an extract of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange. The detailed Financial Results are available on the Company's website at www.maximusinternational.in and the Stock Exchange's Website at www.bseindia.com

For Maximus International Limited

Deenak V Raval Place: Vadodara Date: 14th February, 2023 (Chairman & Managing Director)

## TATA TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

CIN: L15491WB1962PLC031425 Registered Office: 1, Bishop Lefroy Road, Kolkata-700020 Tel: +91 033 22813779/3891, Fax: 033-22811199

E-mail id: investor.relations@tataconsumer.com, Website: www.tataconsumer.com

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL KOLKATA BENCH** 

COMPANY PETITION NO. C. P. (CAA) 196/KB/2022 **CONNECTED WITH** COMPANY APPLICATION NO. C. A. (CAA) 110/KB/2022

In the matter of the Companies Act, 2013;

And

In the matter of Petition under Section 230 - 232 of the Companies Act. 2013 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016;

In the matter of Composite Scheme of Arrangement among Tata Consumer Products Limited, Tata Coffee Limited and TCPL Beverages & Foods Limited and their respective shareholders and creditors;

(CIN: L15491WB1962PLC031425), a public listed company, incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at 1, Bishop Lefroy Road, Kolkata - 700020

In the matter of Tata Consumer Products Limited

TATA COFFEE LIMITED

(CIN: L01131KA1943PLC000833) a public listed company, incorporated under the Companies Act, 1913, having its registered office at, Pollibetta, Kodagu, Karnataka - 571215

Date: February 13, 2023

...TRANSFEROR COMPANY / DEMERGED COMPANY

# TCPL BEVERAGES AND FOODS LIMITED

(CIN: U15400KA2022PLC1583373) a public unlisted company, incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at, Kirloskar Business Park, Block C, 3rd and 4th Floor, New Airport Road, Hebbal, Bangalore - 560024

AND

# TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

(CIN: L15491WB1962PLC031425) a public listed company, incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at,1, Bishop Lefroy Road, Kolkata - 700020

...TRANSFEREE COMPANY / RESULTING COMPANY NO. 2

In the Matter of:

TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

...PETITIONER COMPANY

... RESULTING COMPANY NO. 1

### NOTICE OF HEARING OF THE COMPANY PETITION FILED BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, KOLKATA

Pursuant to the directions given by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench ("NCLT"), by its order dated February 1, 2023 passed in the above Company Scheme Petition ("Order"), notice is hereby given that the captioned Company Petition connected with Company Application No. C.A. (CAA) 110/KB/2022, seeking sanction from the Hon'ble NCLT to the Composite Scheme of Arrangement among Tata Coffee Limited ("Transferor Company"/"Demerged Company"), TCPL Beverages and Foods Limited ("Resulting Company No. 1") and Tata Consumer Products Limited ("Petitioner Company/Resulting Company No. 2"), was filed by the Petitioner Company on December 08, 2022 and that the same was admitted by the Hon'ble NCLT vide the Order. The Hon'ble NCLT has fixed the Company Petition for final hearing before the Hon'ble NCLT, on March 13, 2023.

If any person concerned with the Petitioner Company is desirous of supporting or opposing the said Company Petition, he/she/it should send to the Hon'ble NCLT and to the Advocates of the Petitioner Company, Souvik Mazumdar at Room No. 75, 2nd Floor, 10, Old Post Office Street, Kolkata - 700001 a notice of his/her/its intention, signed by him/her/it or his/her/its advocate, with his/her/its name and address, so as to reach the Hon'ble NCLT and the Advocates for the Petitioner Company not later than 7 (seven) days before the date fixed for the hearing of the said Company Petition. Where such person concerned seeks to oppose the said Company Petition, the grounds of his/her/its opposition or a copy of the affidavit in that regard should be furnished with such notice.

A copy of the said Company Petition as was filed before the Hon'ble NCLT can be obtained from the below mentioned office address of the Petitioner Company between 11:00 a.m. and 01:00 p.m. on any day (except Saturdays, Sundays and public holidays) and not later than 1 (one) day before the date fixed for the hearing of the said Company Petition by any person concerned requiring the same, on payment of required charges.

Contact details of the Petitioner Company is as follows:

**Tata Consumer Products Limited** 

(CIN: L15491WB1962PLC031425) Registered office at 1, Bishop Lefroy Road, Kolkata - 700020, West Bengal. Email: investor.relations@tataconsumer.com Website: www.tataconsumer.com

For Tata Consumer Products Limited

Adv. Souvik Mazumdar

Advocate for the Petitioner Company Room No. 75, 2nd Floor, 10, Old Post Office Street, Kolkata - 700001

Place: Kolkata Date: February 14, 2023



















संदर्भः UCO/RP/2022-23/485

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यको बैंक राजेंद्र प्लेस शाखा ३०/२०

पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008

दिनांकितः 31.01.202

1. उधारकर्ता मैसर्स श्रीति आनंद, प्रोपराइटर मैसर्स श्रियम ज्वैल्स के समस्त अन्य विधिक उत्तराधिकारीगण, उनमें निम्ननामित व्यक्ति सम्मिलित हैं 2. श्री आनंद प्रकाश शर्मा 3. श्री अनन्या प्रकाश 4. श्री श्रियम प्रकाश

पता : दुकान नं. 237, वेव सिल्वर टावर, सेक्टर 18, नोएडा, यू.पी. 201301 (यूनिट नंबर 37, द्वितीय तल)

अन्य पता यहां पर भी : दुकान नं. 134, वेव सिल्वर टॉवर, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी 201301

• 117, कैलाश हिल्स, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली-110065

• 219, विनोबापुरी, भू तल (दाएं), लाजपत नगर-।।, नई दिल्ली 110024

• द्वारा आनंद शर्मा, ओ-61, प्रथम तल, लाजपत नगर-।। दिल्ली-110024

• द्वारा आनंद शर्मा, सी–222, जी.एफ. लाजपत नगर–। नई दिल्ली–110024

विषयः 'वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद 'अधिनियम' संबोधित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना'। संदर्भ: 13(2) के अंतर्गत कर्जदार को भेजे गए नोटिस दिनांक 10.10.2022 का भी संदर्भ लें।

ऋण खाता सं.: 10220610009932

प्रिय श्रीमती / श्रीमान अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के तहत यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकार होने के नाते, एतदद्वारा आपको, श्रीमती श्रीति आनंद के कानुनी उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित सुचना जारी करते हैं: मृतक श्रीमती श्रीति आनंद के अनुरोध पर, उन्हें बैंक द्वारा अपनी राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली शाखा के माध्यम से समय-समय पर बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाने वाली विभिन्न संपत्तियों के समक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई थीं। आपके द्वारा निष्पादित उक्त क्रेडिट सुविधाओं

और सुरक्षा समझौते(ओं) / दस्तावेज(दस्तावेजों) के प्रासंगिक विवरण क्रमशः चल-चलन की गिरवी को छोड़कर अनुसूची 'ए' और 'बी' में बताए गए हैं। आप उक्त समझौते(तों) / दस्तावेज(जों) के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए वचनबद्धता के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त की है। स्वर्गीय श्रीमती श्रीति आनंद ने बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित सृजित करते हुए टाइटल डीड / पंजीकृत बंधक जमा करके बंधक भी बनाया। इस तरह के बंधक से संबंधित दस्तावेज भी अनुसूची 'बी' में बताए गए हैं।

सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण विशेष रूप से अनुसूची 'सी' में बताए गए हैं।

उधारकर्ता ने समय-समय पर शेष राशि और पुनरुद्धार पत्रों और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि निष्पादित करके उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में देयता निर्वाह को भी स्वीकार किया। उपर्युक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधाओं का परिचालन और संचालन अनियमित हो गया है और ऋण को 29.08.2022 क गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मूल ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी में आपके द्वारा की गई चूक परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया गया है। बार-बार अनुरोध करने और नोटिस देने के बावजूद, उधारकर्ता उक्त देय राशि/बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहा।

इसलिए, बैंक एतदद्वारा आपसे, उक्त 'अधिनियम' की धारा 13(2) के तहत स्वर्गीय श्रीमती श्रीति आनंद के कानूनी उत्तराधिकारियों से इस नोटिस को जार्र करके आह्वान करता है कि वे इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें। आपकी बकाया देनदारिय (कुल मिलाकर) बैंक को देय और बकाया दिनांक 10.10.2022 के अनुसर 30.04.2022 तक ब्याज सहित र 13,82,674.59 (रुपए तेरह लाख बयासी हजार **छह सौ चौहत्तर और उनसठ पैसे मात्र)** है। आप, दिनांक 01.05.2022 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि साथ भविष्य के ब्याज का भगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

यदि आप, श्रीमती श्रीति आनंद के कानूनी उत्तराधिकारी, बैंक को उपरोक्त राशि दिनांक 10.10.2022 के अनुसार रु. 13,82,674.59 (रुपए तेरह लाख बयार

हजार छह सौ चौहत्तर एवं उनसठ पैसे केवल) का 30.04.2022 तक नियत ब्याज सहित, 01.05.2022 से आगे के ब्याज और आकस्मिक ब्यय, बताई गड़ लागत के साथ ऊपर दिए गए इस नोटिस के अनुसार 'अधिनियम' की धारा 13(2) के तहत भगतान करने में विफल होते हैं. तो बैंक धारा 13 की उप-धा (4) के तहत और कथित 'अधिनियम' के अन्य लागू प्रावधानों के तहत दिए गए सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको, श्रीमती श्रीति आनंद के कानूनी उत्तराधिकारियों को भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप–धारा 13 के संदर्भ में, आप इस नोटिस व अनुसूची 'सी' में वर्णित कथित सुरक्षित परिसंपत्तियों को बैंक की लिखित सहमति प्राप्त किय बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरि

यह नोटिस, इस तरह के अन्य कार्रवाइयों या विधिक कार्यवाहियों प्रारंभ करने के बैंक के पूर्वाग्रह के बिना है, जैसा कि यह कानून के किसी भी अन्य ला प्रावधानों के तहत आवश्यक है।

संपत्ति का साम्यिक बंधक — दुकान अधि क्षेत्र माप 12.74 वर्ग मीटर, यूनिट नंबर 37, द्वितीय तल, वेव सिल्बर टाउन, प्लॉट नंबर डी–६, सेवटर 18, नोएडा, जित गौतम बुद्ध नगर, यूपी जो सुश्री श्रीति आनंद पुत्री श्री अशोक कुमार के स्वामित्वधारण वाली उप–पट्टा विलेख संख्या 4554, बही संख्या ।, खंड संख्या 601 पृष्ठ 143 से 174 दिनांक 15.05.2014 के अनुसार पंजीकृत है।

भापका विश्वासपाः प्राधिकृत अधिकारी

## <u>प्रपत्र सं. आईएनसी-26</u>

(कम्पनीज (संस्थापन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु विज्ञापन

### केंद्र सरकार

प्रादेशिक निदेशक, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के सामने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनीज (संस्थापन) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के अनुच्छेद (अ) के मामले में

अैडव्हेन्ट बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय 2030, पहली मंज़िल, बाज़ार सिताराम, दिल्ली उत्तर, दिल्ली 110006 पर है, उनके मामले में ... याचिकाकर्ता एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है की कंपनी की दिनांक 3 फरवरी 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय का 'दिल्ली राज्य' से 'महाराष्ट्र राज्य' में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसार स्थानांतरण करने हेतु कम्पनी के मेमोरेण्डम आफ असोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग करते हेतु केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का कंपनी का प्रस्ताव हैं।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण के कारण यदि किसी व्यक्ती के हित में बाधा होने का संभव हो तो, वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत पत्र भर दे या उनकी आपत्तियां. हित का स्वरुप तथा विरोध का आधार दर्शाने वाले शपथ पत्र के साथ, प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के बी-2 स्कंध, 2री मंज़िल, पर्यावरण भवन, जीसीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली के पास इस सूचना के प्रकाशन से चौदह दिनों के भीतर व्यक्तिश: या पंजीकत डाक से पहुँचाएं तथा उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी को निम्न निर्देशित पते

2030, पहली मंज़िल, बज़ार सिता राम, दिल्ली उत्तर, दिल्ली-110006

कृते औडव्हेन्ट बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड स्वाक्षरी/-

(प्रभाकर कक्कर)

दि. 14/02/2023 स्थानः मुंबई

निदेशक डीआईएन : 00145435

## एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएन नं: L74899DL1993PLC053060 301, फॉट नं. 12, जमरुद्धपुर, कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048 फोन नं: 91—11—29247721—25, फैक्स: 91—11—29247730 वेबसाइटः www.emmsons.com, ई-मेलः corporate@

### 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

क्र.	-		तिमाही समाप्त		नौ माह		रस को छोड़कर) वर्ष समाप्त
क्र. सं.	विवरण	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	-	_	-	-	-	
2	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
3	कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
5	कुल समग्र आय	(4,402.85)	(4,413.20)	(3,728.10)	(13,167.59)	(11,148.17)	(14,821.63)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10 / – प्रत्येक) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित	1,199.60	1,199.60 -	1,199.60 -	1,199.60 -	1,199.60 -	1,199.60 (198,519.27)
7	प्रति शेयर अर्जन रु. 10/— प्रत्येक (1) बेसिक (रु.) (2) डायल्यूटेड (रु.)	(36.72) (36.72)	(36.81) (36.81)	(31.09) (31.09)	(109.82) (109.82)	(92.96) (92.96)	(123.64) (123.64)

### 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

					(रा।	श लाखा म इपा	एस का छाड़कर)
क्र.	•		तिमाही समाप्त	1	नौ माह	समाप्त	वर्ष समाप्त
सं.	विवरण	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	-	_	$\times$	_	-	-
2	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
3	कर पूर्व अवधि के लिए लाम / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
5	कुल समग्र आय	(4,402.85)	(4,413.20)	(3,728.10)	(13,167.59)	(11,148.17)	(14,821.63)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10 /— प्रत्येक) पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोडकर आरक्षित	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60 (221,580.76)
7	प्रति शेयर अर्जन रु. 10/— प्रत्येक	_		_			(221,000.70)
	(1) बेसिक (रु.) (2) डायल्यूटेड (रु.)	(36.72) (36.72)	(36.81) (36.81)	(31.09) (31.09)	(109.82) (109.82)	(92.96) (92.96)	(123.64) (123.64)

नोट : उपर्यक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के तहत थे, लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 14 फरवरी, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट बॉम्बे स्टॉक

एक्सचेंज में दर्ज की जा रही है। 2. ऊपर सेबी (सचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल/समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार हिते एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 14 फरवरी, 2023

हस्ता./-अनिल कमार मोंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Regd. Off: SF-28, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi 110019 CIN: L74140DL1983PLC016646, Tel: +91-011-43675505; Email Id: brisk1983@gmail.com, Website - www briskservices co in NOTICE TO SHAREHOLDERS

Members are hereby informed that pursuant to Section 108/110 and other applicable provision if any, of the Companies Act, 2013, (the 'Act') read with Rule 20 & 22 and other applicable provisions, if any, of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) ("the Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosur juirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard 2 on General stings ("the SS2") read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, No. 20/2021 dated 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, No. 20/2021 dated December 08, 2021 and No. 3/2022 dated May 05, 2022 ("General Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), approval of the members of Brisk Services Limited ("the Company") is being sought for the Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from the Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("MSEI") by way of Postal Ballot through Postal Ballot/Remote E-voting. The Notice of the Postal Ballot along with the Explanatory Statement thereto has been sent on February 14, 2023 to all the members whose names appear on the Register of member / List of Beneficial Owners as o February 11, 2023 through electronic mail to all those members whose email IDs are registered in the records of depository participants in compliance with the General Circulars, for seeking approval of the members of the Company through Postal Ballot/Remote E-voting, for the Specia Resolution for obtaining consent for voluntary delisting of equity shares of the Company fron Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) in compliance with the relevant provision:

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facilities to its members. The Company is providing e-voting facilities to the Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date to cast their vote electronically through e-voting services provided by NSDL. The manner of remote e-voting has been provided in detail in the Notice of the Postal Ballot.

The Board of Directors has appointed M/s G Aakash & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No: A57213, COP : 21629) as the Scrutinizer for conducting the Posta Ballot / electronic voting in a fair and transparent manner. Members holding shares in physica mode are requested to fumish their email address and mobile number with Company's Registral

Members who have not received the Postal Ballot Notice may apply to the Registrar to the Delisting offer, i.e. RCMC Share Registry Private Limited, B-25/1, Okhla Industrial Area, Phase II New Delhi -110020, or obtain a duplicate thereof. The Postal Ballot Notice is also available at Company's website www.briskservices.co.in and NSDL e-voting website

The voting rights of the Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. February 11, 2023. A person who is not a Member as on cut-off date should treat this notice for information purpor

The scrutinizer will submit his report to the Company within one working day from the last date or e-voting and the result of the Postal Ballot will be announced accordingly. The results would be communicated to the stock exchange and shall also be displayed on the Company's website i.e

nces, the members may contact Mr. Sipendra Kumar, Director of the Company at +91-011-3675505 or email: brisk1983@gmail.com. For any queries or issuer regarding e-voting you may contact NSDL: Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound oat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id

(SIPENDRA KUMAR Place : New Delhi Date : February 14, 2023

## **BRISK SERVICES LIMITED**

of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

Members are requested to note that the e-voting and voting through Postal Ballot will open o Wednesday, February15, 2023 at 9.00 A.M and will close on Friday, March 17, 2023 at 5.00 P.M.

and Share Transfer Agent ("RTA") and Members, who have not registered their email address so far, are requested to register their email address for receiving all communications from the Company electronically with RTA at email id: rdua@remcdelhi.com

https://www.evoting.nsdl.com.

evoting@nsdl.co.in. For Brisk Services Limite

DIN: 06909279

**MAWANA SUGARS LIMITED** CIN: L74100DL1961PLC003413

Registered Office: 5th Floor, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place, New Delhi-110 125 Tel.: 91-11-25739103, Fax: 91-11-25743659, Email: corporate@mawanasugars.com, Website: www.mawanasugars.com

(Rs. in million except earnin Standalone Consolidated								ing per snar					
S.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended Year Ended					Nine Mon	ths Ended	Year Ended	
No.		December 31, 2022	Unaudited September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	Audited March 31, 2022	December 31, 2022	Unaudited September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	Audited March 31, 2022
1	Total Income from Operations	4,829.39	3,421.74	4,883.07	11,340.76	11,895.34	14,859.63	4,825.72	3,420.97	4,881.00	11,336.27	11,857.47	14,817.76
2	Profit / (Loss) for the period/year before tax and exceptional items)	83.23	(420.96)	202.96	(470.05)	25.69	501.16	71.18	(429.61)	206.12	(501.10)	(19.02)	444.51
3	Profit / (Loss) for the period/year before tax (after exceptional items)	83.23	(420.96)	202.96	(479.65)	(0.54)	448.37	71.80	(428.88)	206.12	(508.95)	(45.25)	379.04
4	Profit / (Loss) for the period/year after tax (after exceptional items)	64.50	(316.31)	148.69	(360.77)	(4.28)	330.83	53.07	(324.23)	151.85	(390.07)	(48.99)	261.50
5	Total Comprehensive Income/(loss) for the period/year {Comprising profit/(loss) for the period/year and Other Comprehensive Income/ (loss) for the period/year (after tax)}	64.50	(316.31)	148.69	(360.77)	(4.28)	332.25	53.07	(324.23)	151.85	(390.07)	(48.99)	263.13
6	Equity Share Capital	391.17	391.17	391.17	391.17	391.17	391.17	391.16	391.16	391.16	391.16	391.16	391.16
7	Other Equity as per balance sheet						3,742.55						3,451.48
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) a) Basic/Diluted	1.65	(8.09)	3.80	(9.22)	(0.11)	8.46	1.36	(8.29)	3.88	(9.97)	(1.25)	6.69

The auditors have conducted limited review of the standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022. These unaudited financial results have been recommended by the Audit Committee at its meeting held on February 14, 2023 and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2023.

The above is the extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 are available on the stock exchange websites. (www.nseindia.com www.bseindia.com) and on the Company's website

The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("IndAS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder

For Mawana Sugars Limited Sd/ Dharam Pal Sharma

### MPS INFOTECNICS LIMITED

Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L30007DL1989PLC131190, Ph: 011-43571044, Fax:011-43571047; Email: info@mpsinfotec.com

Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2022

	S. No.	Particulars	d	Quarter Ended			Nine Months Ended		
L			31-Dec-22 Un-audited	30-Sep-22 Un-audited	31-Dec-21 Un-audited	31-Dec-22 Un-audited	31-Dec-21 Un-audited	31-Mar-22 Audited	
Ľ	1	Total income from operations (net)	12.77	11.75	93.67	39.29	115.56	133.96	
ľ	2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(119.75)	(124.37)	(54.49)	(373.47)	(321.58)	(454.98)	
ľ	3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(104.18)	(108.79)	(43.30)	(326.75)	(288.01)	(412.14)	
ı	4	Total Comprehensive Income for the Period (Net of Taxes)	(89.86)	(16.36)	(42.86)	(250.10)	(286.71)	(381.19)	
1	5	Equity Share Capital (Face Value Rs.1/- per share)	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	
L	6	Reserves excluding Revaluation reserves (i.e. Other equity)						6,100.68	
ľ	7	Earning Per Share (Basic)	(0.002)	(0.000)	(0.001)	(0.007)	(0.008)	(0.010)	
į	В	Earning Per Share (Diluted)	(0.002)	(0.000)	(0.001)	(0.007)	(0.008)	(0.010)	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SERI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com.

The key standalone fin

2. The key cumuulene imanelui imeninationale	ao anaon.					
Particulars	C	Quarter Ende	d	Nine Mont	ns Ended	Financial Year Ended
	31-Dec-22	30-Sep-22	31-Dec-21	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Mar-22
	Un-audited	<b>Un-audited</b>	Un-audited	<b>Un-audited</b>	<b>Un-audited</b>	Audited
Total revenue from operations	12.77	11.75	93.67	39.29	115.56	133.96
Profit before tax	(119.75)	(124.37)	(54.49)	(373.47)	(321.58)	(454.98)
Profit after tax	(104.18)	(108.79)	(43.30)	(326.75)	(288.01)	(412.14)

3. The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequenti approved by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2023. For MPS Infotecnics Limited

Mr. Peeyush Kumar Aggarwal

Managing Director DIN:00090423



Place : New Delhi Date : 13/02/2023

# विपुल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट सं. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 कॉरपोरेट कार्यालयः विपुल टेकस्क्वायर, गॉल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009

CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं.: 0124-4065500 वेबसाइट: www.vipulgroup.in 

3	िदिसम्बर, 2021 को समाप्त तृतीय	ातमाही एव	ना महान के 1	लए एकल अ							
			(रु. लाख में प्रति शेयर व								
क्र. सं.	विवरण		समाप्त तिमाही व	हे लिए	समाप्त नौ	महीन के लिए	31 .03 .2022				
सं.							को समाप्त				
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022		वर्ष हेतु				
		अलेखा परीक्षित		अलेखा परीक्षित		अलेखा परीक्षित					
1	परिचालन से कुल आय	759,20	1,444.65	7,606.46	3,635.42	10,818,34	13,158.05				
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट										
	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(3,453,65)	(2,837.48)	(3,491,51)				
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)										
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,837.48)	(3,491,51)				
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाम/(हानि)		***************************************		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,131.94)	(2,785.97)				
5	इक्विटी शेयर पूँजी	1,199,84	1,199.84	1,199.84	1,199,84	1,199,84	1,199,84				
6	अविध के लिए कुल परिपूर्ण आय [अविध										
	(करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत)	(4 004 40)	(007.07)	(40.74)	(40 000 00)	(0.404.04)	(0.700.00)				
_	के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित]	(1,221.19)	(907,87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,131.94)	(2,736,86)				
7	प्रति शेयर उपार्जन (रु. 1/- प्रत्येक)										
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए) - बेसिक	(1.00)	(0.76)	(0.04)	(10.74)	(4.70)	(0.00)				
		(1.02) (1.02)	(0.76) (0.76)	(0.04) (0.04)	(10.74)	(1.78)	(2.32)				
	- डाइलूटेड	' '	, , ,	, ,	(10.74)	(1.78)	(2.32)				
	31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त र	-									
1	परिचालन से कुल आय	860.89	4,865.36	7,828.23	7,304.72	11.611.39	14,776.19				
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट										
	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(1,393,35)	2,750.64	(244,25)	(712,81)	(3,484.64)	(4,883.47)				
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)										
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,393.35)	2,750.64	(244.25)	(10,145.96)	(3,484.64)	(4,888.38)				
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाम/(हानि)										
_	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,391,97)	1,867.42	(190.11)	(11,041.34)	(2,779.15)	(4,182,65)				
5	इक्विटी शेयर पूँजी	1199.84	1199.84	1199.84	1199.84	1199.84	1199,84				
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि										
	(करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत)	(4 004 07)	1 007 15	(100.11)	(11 011 61)	(0.330.45)	(4.400 F.)				
-	के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित]	(1,391,97)	1,867.42	(190.11)	(11,041,34)	(2,779.15)	(4,133,54)				
7	प्रति शेयर उपार्जन (रु. 1/- प्रत्येक)										
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)	(1.10)	1.50	(0.10)	(0.00)	(0.00)	(0.40)				
	- बेसिक	(1.16)	1,56	(0.16)	(9.20)	(2.32)	(3,49)				
	- डाइल्टेड	(1.16)	1,56	(0.16)	(9.20)	(2.32)	(3,49)				

िचाणी : ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं अन्य आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 ("सूचीकरण विनियमन") के विनियमन 33 के अधीन बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास दायर 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तृतीय तिमाही तथा नी महीने के एकल तथा समेकित अनांकेक्षित विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के एकल एवं समेकिर अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कंपनी की

अनोकाक्षत वित्तीय (परणामा क) सम्यूण प्राप्त स्टाक एक्सचजा का वबसाइटा याना **www.usemula.com** तथा **www.nsemula.com** तथा करना करना का वेबसाइट **www.vipulgroup.in** पर उपलब्ध है। लेखा परीक्षक किमटी द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तृतीय तिमाही तथा नौ महीने के एकल एवं समेकित अनोकिक्षत वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई है एवं उनकी सिफारिशो पर 14 फरवरी, 2023 को आयोजित निवेशक मंडल द्वारा अपनी संबद्ध बैठक में उसे अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण विनियममों के विनियमन 33 की आवश्यकताओं के अनुसार संविधिक लेखा परीक्षक ने 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के एकल एवं समेकित अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है तथा बोर्ड द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट को अनुमोदित कर

उपरोक्त परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित आईएनडी एएस में उल्लेखित अनुमोदित तथा परिमापन सिद्धांतों के साथ पिठ उसके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों तथा भारत में साधारण तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। संबंधित परिणाम कंपनी की वेबसाइट यानी www.vipulgroup.in तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों

यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है। बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/-पुनीत बेरीवाला तारीख: 14 फरवरी, 2023

**ReLIANCE** 

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. 11वीं मंजिल, उत्तरी साइड, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व),

मुम्बई-400063 प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना [नियम 8(6) के साथ पठित नियम 6(2) देखें]

प्रतिभूत हित (प्रवर्तेन) नियम, 2002 के नियम s(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो एवं प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना एतदारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सचना ही जाती है कि प्रतिभत लेनदार के पास बंधक/दर्ष्टिबंधद नम्निलिखत अचल/चल सम्पत्तियों. जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया।

कि, रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दिनांक 29,03,2019 को एसाइनमेंट अनुबन्ध के माध्यम से अपने अधिकारों, स्वामित्व तः ब्याज एवं निहित प्रतिभूतियों सहित आपके ऋण खाते की वित्तीय आस्तियों/कर्जों को **आरएआरसी ०५९ (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट** के ट्रस्टें **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रेक्शन कम्पनी लि. (आरएआरसी**) के पक्ष में एसाइन कर दिया है। कथित एसाइनमेंट के कारण, हम सम्पूर्ण अनुबन्धित बका की वसूली के लिए कानून तौर पर पात्र एवं आपके प्रतिभूत लेनदार हो गये हैं।

अतः रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत प्राधिकारी आपको 15 दिन की सूचना देते हैं कि नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्तिग धारा 13(2) के तहत माँग सूचना में उल्लिखित राशि एवं भावी ब्याज तथा लागत जो आरएआरसी 059 (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट के टस्टी **रिलायंस एसेट रिकंस्टक्शन कम्पनी लि. (आरएआरसी**) के पक्ष में बकाया बकाया है, की उल्लिखित जमानतियों/बंधककर्ताओं से वसली वे लिए 27.03.2023 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मल्य तथ जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निम्नलिखित है :

बंधक सम्पत्ति का विवरण

ı	लॉट	कर्जेदार का नाम, सम्पत्ति का विवरण, मांग सूचना तथा कब्जा करने की तिथि	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
ı	नं.			
ı	1.	कवलीन कौर खुराना पुत्री कमलदीप सिंह खुराना और गगन दीप जलवाल पुत्र कुलदीप सिंह दोनों निवासी डब्ल्यूजेड-	₹.	₹.
ı		12ए प्लॉट नंबर 114 शाम नगर एक्सटेंशन विष्णु गार्डन, दिल्ली-110018	35,06,490/-	3,50,649/-
ı		साथ ही: संपत्ति संख्या 18/93- बी, गली नंबर 2, पूर्वी मोती बाग, रोहिल्ला, दिल्ली -110007 संपत्ति: पहली मंजिल		
ı		और दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, संपत्ति संख्या 18/93-बी के पश्चिमी भाग के हिस्से में, गली नंबर 2,		
ı		माप क्षेत्र 46 वर्ग मीटर, पूर्वी मोती बाग, रोहिल्ला, दिल्ली -110007 में स्थित भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्से		
ı		के साथ		
ı		मांग सूचनाः रु. 43,76,356.50/- (रुपये तैतालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ छप्पन और पचास पैसे मात्र)		
ı		13.11.2018 तक तथा भावी ब्याज और लागत		
ı		कब्जे की तारीख: 15-05-2019		

सम्पत्ति का निरीक्षण : 23.03.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 02.00 बजे अप. संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 24/03/2023 को 3.00 बजे अप. तक : 27/03/2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार सहित

**बिक्री के नियम एवं शर्ते** : 1. सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मुल्य से नीचे नहीं की जाएगी तथा बिक्री प्रतिभुत क्रेडीटर के रूप में आरएआरसी की पुष्टि के अधी

होगी। 2. ई-नीलामी मै. सी1 इंडिया प्रा.लि. द्वारा ऑनलाइन प्लॉंट नं. 68 गुरुग्राम, हरियाणा, पिन कोड–122003 पर आयोजित होगी। 3. ई-नीलामी में भाग लेने पूर्व इच्छुक बोलीदाता के पास ई–मेल आईडी हो तथा उन्हें पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा मै. सी1 इंडिया प्रा. ि यजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। ४. संभावित बोलीदाता मै. सी। इंडिया प्रा.लि. ( सम्पर्क व्यक्ति विनोद चौहान, मोबाइल नं. +91981388793 Delhi@c1india.com अथवा Support@bankeauctions.com (हेल्प लाइन नं. 7291981124, 25, 26) से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रा कर सकते हैं। 5. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान चालू खाता सं. 6742557088, बैंक का नामः इण्डियन बैंक शाखा : शांताकुज, वेस्ट ब्रांच मुम्बई, 400054 लाभभोगी का नामः **आरएआरसी ०५१ ट्रस्ट (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट**, आईएफएससी कोडः IDIB000S010 में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतर द्वारा किया जाएगा। कृपया ध्यान रहे कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6. आरक्षित मूल्य से नीचे एवं/अथवा ईएमडी के बिना बोल स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता रु. 5000/– प्रति लॉट के गुणक में अपनी बोली राशि में सुधार कर सकते हैं। 7. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषि किए जाने के तत्काल बाद 25% बोली राशि/बिक्री मूल्य (धरोहर राशि सहित) का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली/ बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उक्त रूप में बोली राशि का भुगतान नहीं करते हैं, ईएमर्ड सहित सभी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। ९. असफल बोलीदाता की ईएमडी ई-नीलामी बिकी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद बिना किसी ब्याज के सात दिनों के भीत वापस लौटा दी जाएगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण उनकी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास तथा रेकार्ड्स में सही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी गलत गलत विवरण या त्रुटियों आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 11. अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना कोई कारण बताए किर भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने या बिक्री को स्थगित/ निलंबित/ रह करने अथवा बिक्री के किसी भी नियमों एवं शतों में संशोधन करने का अधिकार है। 12 संपत्ति पर चार्ज/अधिभारों/विधिक बकायों के संदर्भ में बोलीदाता स्वयं गोपनीय तरीके से जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व संपत्ति के टाईटल, विस्ता अथवा गुणवत्ता के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। ऑन लाइन बोली जमा कर देने के बाद संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों तथा किसी अन्य मामले आदि के लिए किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किए जाएंगे। 13. उपलब्ध रिकार्ड के अनसार अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में इस सचना की तिथि तक सम्पत्ति पर कोई ऋणभा नहीं है। 14. स्टाम्प ड्यूटी/ पंजीकरण शुल्क सहित संपत्ति की बिक्री पर किसी एरिअर्स, बकाए, करों, वैट, टीडीएस, जीएसटी, चार्जेज, सांविधिक या अन्य का वह

केवल केता को ही करना होगा। किसी अन्य सूचना के लिए 18001039711/18602664111/18003099711 से सम्पर्क किया जा सकता है।

स्थान : दिल्ली तिथि : 15.02.2023

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के तहत 30 दिवसीय विधिक सूचना

तद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदारों/जमानतियों को अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित ई-नीलामी के पूर्व उपर्युक्त सम्पूर्ण राशि अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर उपर्यक्त बंधक सम्पनी की ई-नीलामी की जाएगी और शेष बकाया. यदि कोई हो, ब्यॉज/लागत सहित वसल किया जायेगा। नीलामी के लिए निर्धारि तेथि पर नीलामी बिक्री में कोई बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, प्रतिभूत लेनदार किसी भी संभावित खरीदार को ऊपर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर या उससे अधिक निर्ज संधि के माध्यम से इस संपत्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

अधिकत प्राधिकारी, रिलायंस एसेट रीकंस्टक्शन कं. लिमिटेड

नोट : सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना के निर्गमन के परचात अदा की गयी राशि, यदि कोई हो. वसली/समायोजन के समय बकाया देयताएं निश्

(Whole Time Director DIN No. 07259344

Place: New Delhi Date: February 14, 2023